



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 9—अगस्त 15 2003 (श्रावण 18, 1925)  
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 9—AUGUST 15, 2003 (SRAVANA 18, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

## [PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अप्पॉइंटमेंटों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

## अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560 094, दिनांक 15 जुलाई 2003

सं. 3/1(1)/2003-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	गौरव बेलवाल	06.05.2003
2.	विलफेड ए.ए. डब्ल्यू	09.05.2003
3.	भूपेश अग्रवाल	19.05.2003
4.	जयचित्र	20.05.2003
5.	के. सुब्बुलक्ष्मी	29.05.2003
6.	आर. जैशमी किरुब रजती	04.06.2003

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 3/1(2)/2003-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में कु. शशी कुरियक्कोसे, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 30.05.2003 के अग्रस्तह से स्वीकार करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 3/1(2)/2003-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियर ने स्वीच्छक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के पूर्वाह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है :-

क्रम सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	एस. उषा देवी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	20.05.2003
2.	जी. मुथुरामन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.	30.05.2003

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 3/1(2)/2003-I-- अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित अधिकारियों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दिये गये पद से दिनांक 30.04.2003 के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है:--

क्रम सं.	नाम	पद
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	ए. प्रभाकरन नायर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
2.	एस. सुब्रमणियन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
3.	के. रामचन्द्रन नायर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
4.	सोमसुन्दरन यू.आई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
5.	ए. वेणुगोपाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
6.	टी. नारायण	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
7.	जॉनी पी. अब्राहम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
8.	पी.एम. वर्गीस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
9.	के.एम. सामुयल	भण्डार अधिकारी

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 4/1(1)/2003-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र, शार, श्रीहरिकोटा में श्री एन. श्रीनिवासुलु रेड्डी को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी. के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 21.3.2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 4/1(1)/2003-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र, शार, श्रीहरिकोटा में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	यू. श्रीहरिराम	21.01.2002
2.	एस.बी.वी. सत्यनारायण	08.04.2002
3.	ए. राजेश	10.04.2002
4.	रॉय थंकचन	10.04.2002
5.	एम. रामकृष्ण	11.04.2002
6.	अमित्व मोहन्ती	22.04.2002
7.	एम. कार्तिगेय सेल्वन	22.05.2002
8.	के. शिव कामेश्वर	29.05.2002
9.	ई. सुरेश कुमार	12.06.2002
10.	डी. श्रीनिवास रेड्डी	25.09.2002
11.	एस. अब्दुल सलीम	20.11.2002

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 4/1(1)/2003-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र, शार, श्रीहरिकोटा में निम्नलिखित व्यक्तियों को चिकित्सा अधिकारी-एस.डी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	डॉ. जी. शीला	17.09.2002
2.	डॉ. शाखापुर	19.12.2002

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2003-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बंगलूर में श्री टी. लक्ष्मण किशोर को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 28.5.2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2003-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बंगलूर में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दी गयी तारीख के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	विनय कुलकर्णी	02.06.2003
2.	प्रशांत डी. बागलकोट	18.06.2003
3.	विनोद नारायणराव बागी	19.06.2003

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 6/1(1)/2003-I--श्री ए. गुरूराज ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई. के पद का कार्यभार दिनांक 30.06.2003 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 9/1(1)/2003-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इन्सैट-मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन में निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने

दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1.7.2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नत की गई	पद जिस पर पदोन्नत की गई
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	डॉ सी.जी. पाटील	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.
2.	ए.सी. मोहन्ती	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
3.	टी.एन. सुरेश कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
4.	मीर सरदार मोईउद्दीन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
5.	शशिकला एस. राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.
6.	एस.एस. मारुती	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

#### योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2003

सं. ए-19(687)/94-प्रशा. II--आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 10.07.2003 के आदेश सं. 11016/1/2001-आईईएस के तहत, भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) में पदोन्नति एवं रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के राष्ट्रीय औषधीय मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण में तैनाती के परिणामस्वरूप योजना आयोग के श्री ओ. पी. शर्मा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (आईईएस) को रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग, राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को रिपोर्ट करने हेतु दिनांक 22.7.2003 (अपराह्न) से एतद्वारा कार्यभार मुक्त किया जाता है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

सं. ए-19(692)/94-प्रशा. II--आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 10.7.2003 के आदेश सं. 11016/1/2001-आईईएस के तहत, भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) में पदोन्नति एवं कृषि और सहकारिता मंत्रालय, कृषि लागत निर्धारण आयोग में संयुक्त निदेशक के रूप में तैनाती के परिणामस्वरूप योजना आयोग के श्री आर. एस. ठकरान, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (आईईएस) को कृषि और सहकारिता मंत्रालय, कृषि लागत और मूल्य निर्धारण आयोग में रिपोर्ट करने हेतु दिनांक 22.7.2003 (अपराह्न) से एतद्वारा कार्यभार मुक्त किया जाता है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 23 जुलाई 2003

सं. ए-12025/18/2001-प्रशासन-1--योजना आयोग की दिनांक 26 फरवरी, 2003 की अधिसूचना सं. ए-12025/5/2001-प्रशासन-1 के अनुक्रम में राष्ट्रपति, श्री एस.जी. राऊत की रु. 14300-400-18300 के वेतनमान में योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (ग्रामीण और लघु उद्योग) के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को दिनांक 31.12.2003 तक अथवा उस पद के नियमित पदधारी के अपने पद पर प्रत्यावर्तित होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस तदर्थ नियुक्ति के बल पर श्री राऊत को संयुक्त सलाहकार के पद पर नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा और न ही संयुक्त सलाहकार के पद पर उनकी इस तदर्थ नियुक्ति की अवधि को संयुक्त सलाहकार ग्रेड में वरीयता के लिए अथवा अगले उच्च स्तर पर प्रोन्नति के लिए गिना जाएगा।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

सं. ए-12025/18/2001-प्रशासन-1--योजना आयोग की दिनांक 6 मार्च, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति, योजना आयोग में नियमित वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (जस आपूर्ति), श्री शशि कान्त की रु. 12000-375-16500 के वेतनमान में योजना आयोग में उप सलाहकार (ग्रामीण और लघु उद्योग) के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को दिनांक 31-12-2003 तक अथवा उस पद के नियमित पदधारी के अपने पद पर प्रत्यावर्तित होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस तदर्थ नियुक्ति के बल पर श्री शशि कान्त को उप सलाहकार के पद पर नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा और न ही उप सलाहकार के पद पर उनकी इस तदर्थ नियुक्ति की अवधि को उप सलाहकार ग्रेड में वरीयता के लिए अथवा अगले उच्च स्तर पर प्रोन्नति के लिए गिना जाएगा।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 24 जुलाई 2003

सं. एफ. 6(1599)/94-प्रशासन-1--अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), नई दिल्ली में अपनी प्रतिनियुक्ति की तीन वर्ष की अवधि के समाप्ति के बाद उनके प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप श्री एम.एम. चन्दा ने दिनांक 23.07.2003 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में उप सलाहकार (इंजीनियरी) के अपनी नियमित पद का पदभार ग्रहण कर लिया है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. ए-19020/1/2003-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, डा. आदर्श किशोर, आई. ए. एस. (रज. : 69) को 2.7.2003 (पूर्वाह्न) से 26,000/- रुपये

(नियत) के वेतनान में भारत सरकार के सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। वे उक्त तारीख से अगले आदेशों तक महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे।

ए. एन. बरहियार, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. 1-18011/6/98-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परीवीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पुनीत रस्तोगी, आई पी एस (एम टी : 1995) (त्रिपुरा सेगमेंट) को दिनांक 04.09.1997 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :-

जे. बी. कौशिश, डैस्क ऑफिसर

(राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 24 जुलाई 2003

सं. 34/3/2003-प्रशा.2/रा.अ.रि.ब्यूरो--राष्ट्रपति सहर्ष श्री रमेश चन्द मीणा जो कि कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिकीय और कार्यक्रम मंत्रालय में सहायक निदेशक थे, उन्हें राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के कम्प्यूटर एवं प्रणाली शाखा में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान + 400 रुपये के विशेष वेतन में 31 मार्च, 2003 (पूर्वाह) से तीन वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर या अगले आदेशों तक सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

भूपेन्द्र सिंह धूपिया, सहायक निदेशक (प्रशा.)

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

प्रशिक्षण प्रभाग

नई दिल्ली-110067, दिनांक 21 जुलाई 2003

सं. 13019/11/2003-अकादमी डैस्क--राष्ट्रपति, श्री राजीव रंजन मिश्रा, भा.प्र.से. (आन्ध्र प्रदेश : 87) और श्रीमती वसुधा मिश्रा, भा.प्र.से. (आन्ध्र प्रदेश : 87) को 23.06.2003 (पूर्वाह) से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में 15100-400-18300 रुपये के वेतनमान में उप निदेशक (कस्टड) (निदेशक) के रूप में नियुक्त करते हैं।

जगमोहन गुप्ता, निदेशक

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2003

सं. 62 : (फा.सं. ए. 19013/15/2003-प्रशा. I)--राष्ट्रपति, श्री जी. एस. कारकी, भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा, को

9.7.2003 (पूर्वाह) से तीन वर्षों की अवधि के लिए और अगले आदेश होने तक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। उन्हें अवर सचिव (टी आर यू) के रूप में तैनात किया गया है।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

दिनांक 18 जुलाई 2003

सं. 63 : (फा.सं. ए. 19011/14/2003-प्रशा. I)--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ए.जी.एम.यू. : 70) के अधिकारी श्री सतीश चन्द्र को, दिनांक 17.7.2003 (पूर्वाह) से और अगले आदेशों तक राजस्व विभाग में अवर सचिव, भारत सरकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2003

भारतीय सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संस्थापन

सं. 2003 की 12 (ए-38012/8/2003-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, श्री यू. एस. पिल्लै, सहायक सीमा शुल्क आयुक्त की भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा समूह 'क' से दिनांक 1.7.2003 (पूर्वाह) से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति को मंजूरी प्रदान करते हैं।

के. किपगेन, अवर सचिव

दिनांक 15 जुलाई 2003

सं. 2003 की 14 (ए-38012/10/2003-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, श्री पी. आर. एम. बहाराहीन, सहायक सीमा शुल्क आयुक्त की भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा समूह 'क' से दिनांक 9.7.2003 (पूर्वाह) से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति को मंजूरी प्रदान करते हैं।

के. किपगेन, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2003

सं. ए-12011/6/2003-प्रशा. II--राष्ट्रपति, वित्त संवर्ग के नियमित सहायक श्री अनिल शर्मा को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 1 जुलाई, 2003 (पूर्वाह) से अनुभवा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

एस. सौन्दर राजन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2003

सं. 4/5/2000-करेंसी-II(बीएनपी)--राष्ट्रपति, श्री नैय्यर अखतर को, उनकी पस्वीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी हो जाने पर 18 अगस्त, 2002 से बैंक नोट प्रेस में सहायक कार्य प्रबंधक (8000--13500) के मूल पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. आर. भल्ला, अवर सचिव

## (कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 जून 2003

सं. ए-32011/17/2003-प्रशा. I--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2001 में उसके अर्हता प्राप्त करने और प्रशिक्षण और कार्मिक विभाग के द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापन सं. 5/7/2003-सी.एस.-1 दिनांक 5 मई, 2003 के अनुसार परीक्षा कोट के समक्ष वर्ष 2001 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में उसके नाम का निश्चय होने के परिणाम में राष्ट्रपति महोदय श्री उज्ज्वल कुमार को इस विभाग के संवर्ग में 30 मई, 2003 के पूर्वाह्न से 6500-200-10500 रुपये के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के पद के लिए नियुक्त करते हैं।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

दिनांक 18 जून 2003

सं. पीएफजी/(852)/2003-प्रशा. I--व्यय विभाग के कार्यालय आदेश सं. पी एफ सी ए (290)/प्रशा.-1 दिनांक 30 अप्रैल, 2003 के अनुशरण में भारतीय लागत लेखा सेवा (आई सी ए एस) के अधिकारी श्री मनीष गोस्वामी ने 2 जून, 2003 के पूर्वाह्न से कंपनी कार्य विभाग में सहायक निदेशक (लागत) के पद का कार्य भार संभाल लिया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

दिनांक 24 जुलाई 2003

सं. पीएफजी/(638)/2002-प्रशा. II--भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) के अधिकारी श्री बीनुधर मिश्रा ने अपना स्थानांतरण होने पर 19.06.2003 के अपराह्न में कंपनी रजिस्ट्रार, बिहार एवम् झारखंड, पटना के कार्यालय में सहायक कंपनी रजिस्ट्रार के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

2. केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 448 की उपधारा 1 (1-क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री बीनुधर मिश्रा को 23.06.2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक शासकीय समापक, कोलकाता के कार्यालय में सहायक शासकीय समापक के स्थानापन्न पद पर नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

दिनांक 25 जुलाई 2003

सं. पीएफजी/(365)/78-प्रशा. II--भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (लेखा शाखा) अधिकारी श्री हर लाल ने अपना स्थानांतरण होने पर 30.06.2003 के अपराह्न से प्रादेशिक निदेशक, कानपुर के कार्यालय में संयुक्त निदेशक (निरीक्षण) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

2. केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय

कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (लेखा शाखा) अधिकारी श्री हर लाल को 30.06.2003 के अपराह्न से अगले आदेशों तक, कम्पनी रजिस्ट्रार उ.प्र. एवं उत्तरांचल, कानपुर के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2003

सं. ए-42012/1/98-व्य-IV/सी.डी.एन.--राष्ट्रपति, श्री वी. लक्ष्मी रत्न, आई.ए.एस. (तमिलनाडु : 67) को 24.06.2003 (अपराह्न) से भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन (26000 रुपये नियत) में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के प्रशुल्क आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी. एम. सिंह, अवर सचिव

## आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 2003

सं. ए-22012/1/2003-आ.स.(प्रशा. I)--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के गैर कार्यकारी चयन ग्रेड अधिकारी श्री अरविन्द कुमार को आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में दिनांक 1.7.2003 (पूर्वाह्न) से अपर आर्थिक सलाहकार (वेतनमान रुपये 14300-400-18300) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी. एस. नेगी, अपर आर्थिक सलाहकार

## (वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2003

सं. ए-22015/1/98-ई-II--राष्ट्रपति, कोयला मंत्रालय के संवर्ग की श्रीमती आशा रानी, प्रधान निजी सचिव (स्वस्थाने) को 17 जुलाई, 2003 के पूर्वाह्न से 31.12.2003 तक की अवधि के लिए डी जी एफ टी के कार्यालय में 10,000--15,200 रु. के वेतनमान में प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

श्रीमती रानी की नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और इस नियुक्ति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा सी एस एस के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

निर्मल प्रकाश द्विवेदी, उप-सचिव

दिनांक 23 जुलाई 2003

सं. ए-11015/1/96-ई-II--व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा उनके दिनांक 18.7.2003 के यू.ओ. संख्या 61/2/2002-आईसी के तहत भेजे

गए अनुमोदन के अनुसरण में वाणिज्य विभाग में वरिष्ठ अन्वेषकों (भारतीय आर्थिक सेवा के संभरक पदों) के पदों को 6500-200-10,500 रुपए के वेतनमान में आर्थिक अधिकारी (ग्रुप ख-राजपत्रित) के रूप में तत्काल प्रभाव से पुनः पदनामित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वाणिज्य विभाग के निम्नलिखित वरिष्ठ अन्वेषकों के वर्तमान पदनामों को दिनांक 23 जुलाई 2003 के पूर्वाह्न से आर्थिक अधिकारी (ग्रुप ख-राजपत्रित) के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

1. श्रीमती कोमल गुलाटी
2. श्री डी. के. सेठी
3. श्री एम. इब्राहीम कुट्टी
4. श्री वी अशोक (इस समय वाणिज्य विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर)
5. श्री ओ. पी. काला
6. श्री रामेश्वर सिंह
7. श्री पी. सी. हरियाल
8. श्री एस. संधानम
9. श्रीमती शिल्ली डेनियल
10. श्रीमती उषा कुमार (इस समय वाणिज्य विभाग में अनुसंधान अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति पर)
11. श्री के. के. पाण्डे (इस समय वाणिज्य विभाग में अनुसंधान अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति पर)
12. श्रीमती राज दुलारी
13. श्रीमती विवेक कुमार

निर्मल प्रकाश द्विवेदी, उप सचिव

#### पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. ए-19011/11/97-स्थापना--दिनांक 12.3.2003 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत श्री शिवराज सिंह, भा.प्र. से. (छत्तीसगढ़ : 73) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि 14.3.2003 के बाद चार महीनों के लिए बढ़ाते हैं जिससे वे भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित दो न्यायाधीशों वाली समिति को सहायता करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते रहें।

2. उनकी बढ़ाई गई केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि 14 जुलाई, 2003 (अपराह्न) को पूरा होने पर, इस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत श्री शिवराज सिंह, भा. प्र. से. (छत्तीसगढ़ : 73) की सेवाएं 17 दिन के स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के बाद कार्यभार ग्रहण करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के सुपुर्द की जाती हैं।

एल. एस. नेगी, अवर सचिव

#### कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2003

सं. 12/6/2003-ए.एस.ओ.--राष्ट्रपति जी, श्री एम. सत्यमूर्ति, उप निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय को दिनांक 18.7.2003 (अप.) से उनके 5 वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 7.9.2006 तक अथवा जब तक कि उनका कार्यकाल कोयला मंत्री के निजी सचिव के रूप में समाप्त न हो जाए अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, की अवधि के लिए, निदेशक स्तर पर कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) के निजी सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

टी. के. घोष, निदेशक

#### भारी उद्योग एवं लोक मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 2003

सं. ए-12023(2)/2003-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री अरुण बोड़से, उप अभियन्ता, आवास तथा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण महाराष्ट्र सरकार को आगामी आदेश होने तक या मंत्री के कार्यालय त्यागने तक जो भी पहले हो, दिनांक 11 जून, 2003 (पूर्वाह्न) से भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री, श्री सुबोध मोहिते के सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-12023(2)/2003-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री एन. एन. अगरहेडकर, उप खण्ड अभियन्ता, कमांड एरिया डेवलपमेंट अथोरिटी, नागपुर को आगामी आदेश होने तक या मंत्री के कार्यालय त्यागने तक जो भी पहले हो, दिनांक 10 जून, 2003 (पूर्वाह्न) से भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री, श्री सुबोध मोहिते के अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. के. शर्मा, अवर सचिव

#### लघु उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2003

सं. ए-18011/35/2003-स्थापना--राष्ट्रपति, लघु उद्योग मंत्रालय में श्री संदीप दवे, भा. प्र. से. (कर्नाटक : 87) को निदेशक के रूप में 15,100-400-18,300 रुपये के वेतनमान में पांच वर्ष की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि की शेष अवधि के लिए अर्थात् 25.04.04 तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं। उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि 26.04.1999 से आरंभ हुई थी।

एच. आर. जोशी, अवर सचिव

## कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. ए-12031/1/2003-स्थापना--वर्तमान में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यरत श्री वी. गिरिराज, भा. प्र. से. (महाराष्ट्र) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 15.07.2003 के अपराह्न से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

एच. आर. जोशी, अवर सचिव

## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 2003

सं. ए-38012/3/2003-एस. आर. ए.-इस विभाग में संयुक्त आयुक्त (एस. एंड आर.) के रूप में कार्यरत ग्रुप "ए", सामान्य केंद्रीय सेवा के डा. आर. बी. दोहरे अधिवर्षिता की आयु होने पर 31 जुलाई, 2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

रजत दत्ता, अवर सचिव

## खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 21 अप्रैल 2003

सं. ए-19011/3/2002-प्रशा.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.12.2002 के कार्यालय ज्ञापन सं. 29/2/2001-ई ओ (एम एम आई) के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में नियुक्ति हेतु वर्ष 1994 के चयन सूची में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री जे.पी. शुक्ला का नाम शामिल करने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, उन्हें निम्नलिखित ब्योरों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. अधिकारी का नाम व पदनाम	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.12.2002 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में नियत की गई वरिष्ठता	नियुक्ति की समझी गई तिथि	मंत्रालय/विभाग का नाम जहां नियुक्ति की वास्तविक तिथि को पर काम कर रहे थे
1. श्री जे. पी. शुक्ला, उप सचिव (जन्म तिथि : 22.02.54)	34 1994	1.7.1994 9.8.1999	श्रम मंत्रालय श्रम मंत्रालय

म. जयरामन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110049, दिनांक 29 जुलाई 2003

सं. क-19012/3/94-प्रशासन--राष्ट्रपति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में स्थाई अपर औद्योगिक सलाहकार और कार्यकारी औद्योगिक सलाहकार श्री नियाज रसूल को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.07.2003 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति देते हैं।

एन. एम. एल. भटनागर, अवर सचिव

## वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2003

सं. ए-20011/1/2003-स्था.-I--राष्ट्रपति, वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय में सहायक निदेशक, श्रीमती रजनी अग्रवाल को उसी संगठन में 8.7.2003 से आगामी से 6 महीने की अवधि के लिए अथवा नियमित प्रत्याशी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेशों तक जो भी इनमें से पहले हो, रु 10,000-325-15200/- के वेतनमान में उप निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. एल. मल्होत्रा, अवर सचिव

## उपभोक्ता मामले विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2003

सं. ए.-12011/3/95-प्रशा.--केन्द्रीय सरकार अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की अधिकारी श्रीमती पद्मा स्वामीनाथन को 10.7.2003 के पूर्वाह्न से तीन वर्षों के लिए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर 18400-500-22400 रुपए के वेतनमान में उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक संबद्ध कार्यालय वायदा बाजार आयोग, मुंबई के सदस्य (संयुक्त सचिव के समकक्ष) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (4) के उपबंधों के अनुसार श्रीमती पद्मा स्वामीनाथन वायदा बाजार आयोग के सदस्य पद पर अपनी सेवा पूरी करने के पश्चात् उसी पद पर पुनर्नियुक्ति की पात्र होगी।

एस. के. नायक, अवर सचिव

दिनांक 24 जुलाई 2003

सं. पी-993/98-प्रशा.--राष्ट्रपति, उपभोक्ता मामले विभाग में नियमित विधिक माप विज्ञान सहायक, श्री आर. डी. मल्हियार को 17 जुलाई 2003 (पूर्वाह्न) से 8000-275-13500 रु. के वेतनमान में सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत करते हैं।

एस. के. नायक, अवर सचिव

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2003

सं. ए. 11013/3/2003-स्थापना-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी) का कार्यालय के दिनांक 10.7.2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/1/2003-ई. ओ. (एम. एम. I) और इस मंत्रालय के दिनांक 6.3.2003 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुसरण में राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) के निजी सचिव के रूप में श्री अंशु प्रकाश, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ए. जी. एम. यू.: 86) का कार्यकाल 8.6.2003 के बाद और एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 8.6.2004 तक बढ़ा दिया है।

डा. अनिल कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 जुलाई 2003

सं. ए. 12025/4/2001-सी.एच.एस. III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. विनिता गुप्ता को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड के अधिकारी के रूप में परीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 9 मई, 2003 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक वर्धमान महावीर मेडीकल कालेज एवं सफदरजंग अस्पताल में शरीर रचना विज्ञान में सहायक प्रोफेसर के रूप में तैनात करते हैं।

यू. सी. नांगिया, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 जुलाई 2003

सं. ए. 12025/170/98-सी.एच.एस. I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. संजय कुमार को 4.1.2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में अस्थाई आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. संजय कुमार को श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं. सी. 14011/4/2002-सी.एच.एस. I--डा. रवि वेंकट साई द्वारा अपने त्यागपत्र के स्वीकार होने के परिणामस्वरूप, दिनांक 25.10.2002 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया गया माना जाता है।

दिनांक 16.11.2001 से दिनांक 25.10.2002 (पूर्वाह्न) तक की अवधि अकार्य दिवस के रूप में मानी गई है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 22 जुलाई 2003

सं. ए. 38011/1/2003-सी.एच.एस. I--केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.एफ. एस.जी.) के पद पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के नियमित संवर्ग के पदधारी डा. मंजीत सिंह ने अधिवर्षिता की आयु होने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.3.2003 (अपराह्न) को कार्यभार छोड़ दिया।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 23 जुलाई 2003

सं. ए. 12025/03/99-सी.एच.एस. I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. मनोरंजन झा को 23.8.2000 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में अस्थाई आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. मनोरंजन झा को उसी तारीख से क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय, पटना के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 24 जुलाई 2003

सं. ए. 12025/150/99-सी.एच.एस. I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. उमेश प्रसाद यादव को 10 जुलाई, 2000 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में अस्थाई आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. उमेश प्रसाद यादव को उसी तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 25 जुलाई 2003

सं. ए. 12025/193/94-सी.एच.एस. I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. ए. वेंकटसुब्बैया को 21.9.1994 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-75-2800 रुपये दक्षता रोध -100-4000 रुपये के वेतनमान में अस्थाई आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. ए. वेंकटसुब्बैया को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 12025/82/99-सी.एच.एस. I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. बी. बी. श्रवण कुमार को 7.7.2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा



अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. बी. वी. श्रवण कुमार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

### भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2003

सं. ए. 32012/1/2002-भा.चि.प.(स्था.-1)--डा. एस. आर. रेड्डी ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अपनी प्रोन्नति हो जाने के परिणामस्वरूप 29 सितम्बर, 2002 के पूर्वाह्न को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयु) के पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा 29 सितम्बर, 2002 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद में रु. 10,000-325-15,200- के वेतनमान + प्रैक्टिसबंदी भत्ता पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयु) के पद का कार्यभार संभाल लिया।

एन. के. लखनपाल, अवर सचिव

### कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 06 जून 2003

सं. ए. 19012/8/2000-आ.प्र.--इस समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि एवं सहकारिता विभाग में सलाहकार के पद पर कार्यरत भारतीय आर्थिक सेवा में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के अधिकारी श्री एस. सी. गौतम ने आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 21 अप्रैल, 2003 के आदेश सं. 11016/4/2002-भा.आ.से. द्वारा रसायन एवं पैट्रो-रसायन विभाग में आर्थिक सलाहकार के पद पर अपनी नियुक्ति किए जाने पर 30 अप्रैल, 2003 की अपराह्न से आयोग से अपना पदभार त्याग दिया है।

राज कुमार, अवर सचिव

दिनांक 15 जुलाई 2003

सं. ए. 19012/2/2003-आ.प्र.--इस विभाग की दिनांक 23 जून, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 30.10.2002 के आदेश सं. 12015/5/डी.आर.पी./2002-भा.सां.से. द्वारा श्रीमती बिन्दू श्रीदाथन (कुमारी एस नायर), भा.सां.से. की ग्रेड-IV (जे.टी.एस.) अधिकारी ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में सहायक निदेशक के पद पर अपनी तैनाती होने के फलस्वरूप कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 8000--13500 रुपए के वेतनमान में इस पद का कार्यभार दिनांक 2.4.2003 (पूर्वाह्न) से संभाल लिया है।

राज कुमार, अवर सचिव

दिनांक 28 जुलाई 2003

मि.सं. ए. 19012/4/2003-आ.प्र.--आर्थिक कार्य विभाग के आदेश सं. 13015/1/2002-भा.आ.से. दिनांक 25.6.2003 द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि एवं सहकारिता विभाग में निदेशक के रूप में तैनाती के फलस्वरूप श्री बी. ब्रह्मा, भारतीय अर्थ सेवा के एन.एफ.एस.जी. स्तर के अधिकारी ने 1.7.2003 के पूर्वाह्न से 14,300-18,300/- के वेतनमान में आयोग में निदेशक के पद का प्रभार संभाल लिया है।

राज कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. 12022/5/2003-स्था-1--कृषि एवं सहकारिता विभाग के संवर्ग में तथा तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में कार्यरत सर्वश्री पी. लक्ष्मी कांश्रन तथा ब्रह्म राज, श्रेणी 'ग' आशुलिपिक (वैयक्तिक सहायक) का नाम वरिष्ठता कोट के तहत वर्ष 2000 के लिए के.स.आ.से. के श्रेणी 'क' तथा 'ख' (विलयित) की चयन सूची में शामिल कर लिए जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति उनको उसी विभाग में 5.6.2003 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों तक के लिए नियमित आधार पर निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

के. डी. उप्रेती, अवर सचिव

सं. 12022/5/2003-स्था-1--कृषि एवं सहकारिता विभाग के संवर्ग में श्रीमती लूसी बारा (अ.जा.), श्रेणी 'ग' आशुलिपिक (वैयक्तिक सहायक) का नाम वरिष्ठता कोट के तहत वर्ष 2001 के लिए के.स.आ.से. के श्रेणी 'क' तथा 'ख' (विलयित) की चयन सूची में शामिल कर लिए जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति उनको उसी विभाग में 6.6.2003 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों तक के लिए नियमित आधार पर निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

के. डी. उप्रेती, अवर सचिव

दिनांक 23 जुलाई 2003

सं. 12023/5/2001-स्था-5--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति मराठावाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के नियमित अधिकारी और केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अनु.परि. के अंतर्गत), नागपुर में प्रतिनियुक्ति आधार पर निदेशक के रूप में कार्यरत डा. सी. डी. मायी को कृषि एवं सहकारिता विभाग में 22400-525-24500/- रु. के वेतनमान में दिनांक 15.7.2003 पूर्वाह्न से 3.8.2005 (अपराह्न) तक अथवा आगामी आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर कृषि आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. डी. उप्रेती, अवर सचिव

सं. 12026/5/2001-स्था-I/V--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति क्षेत्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला, कल्याणी में वरिष्ठ विश्लेषक श्री जी. चक्रवर्ती को कृषि एवं सहकारिता विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 7 जुलाई, 2003 से अधिकतम 4 वर्षों की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, इसमें जो भी पहले हो, 12000-16,500 रुपए के वेतनमान में उपायुक्त (आई.एन.एम.) के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. डी. उप्रेती, अवर सचिव

### पशुपालन एवं डेयरी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2003

सं. ए-12026/2/98-प्रशा. 1--पशुपालन और डेयरी विभाग में सक्षम प्राधिकारी ने श्री बाबू राम, सहायक आयुक्त (सीयू) की नियुक्ति को 1 जुलाई, 2000 से 30 सितम्बर, 2003 तक की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर 12,000-16,500 रुपए के वेतनमान में उपायुक्त (आईसीडीपी) के पद पर आगे बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की है।

2. यह मंजूरी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की मंजूरी से उनके दिनांक 21.7.2003 के यू ओ संख्या 1570/स्था./ (डी)/03 के तहत जारी की जाती है।

आर. के. शर्मा, अवर सचिव

## ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 जुलाई 2003

सं. ए-12023/4/2003-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री लेंखन एन. ठक्कर, जो सी.एम.एस. कैंडर के अनुभाग अधिकारी हैं, को दिनांक 26.5.2003 (पूर्वाह्न) से सह-सामान्य आधार पर या मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में कार्य करते रहने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो ग्रामीण विकास मंत्री (श्री काशीराम राणा) का अतिरिक्त निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

एच. सी. बवेजा, अवर सचिव

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2003

सं. एफ 15-1689/2001 ई-I--कापीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा श्री एस. डी. शर्मा, अनुभाग अधिकारी को इस मंत्रालय में सहायक प्रभाव से श्री एम. एम. सक्सेना, अनुभाग अधिकारी के स्थान पर कापीराइट का उप रजिस्ट्रार नियुक्त करती है।

बी. एम्. सद्दी, अवर सचिव

## भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली-11, दिनांक 23 जुलाई 2003

सं. एफ. 2-2/2003 प्रशा-I--राष्ट्रपति, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर, डा. एम. वाई. कुदुसु को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में अधीक्षण पुरालेखविद् (अरबी तथा फारसी अभिलेख) के पद पर 4 जून, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

जे. आर. अग्रवाल, निदेशक (प्रशासन)

## संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 जुलाई 2003

सं. ए-39014/1/2000-प्रशा-I--राष्ट्रपति एतद्वारा श्री राकेश शर्मा, संचालक कोड सं. 4059 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, मध्य प्रदेश राज्य एकक भोपाल, में वैज्ञानिक-सी के पद से त्यागपत्र दिनांक 27 दिसम्बर, 2000 की अपवाद से स्वीकार करते हैं और उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्याम सुन्दर, संयुक्त निदेशक

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2003

सं. ए-38014/2/2003-स्था. I--श्री ए. एस. नेगी, जो केन्द्रीय संचालन सेवा में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे थे, उनका देहांत 7.6.2003 को हो गया।

ए. पी. पाट्टी, अवर सचिव

## जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. 7/12/99-भूजल-I--राष्ट्रपति, श्री इन्दनील रॉय को दिनांक 09.06.2003 (पूर्वाह्न) से अस्थाई आधार पर केन्द्रीय भूजल बोर्ड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक "बी" के ग्रेड में कनिष्ठ जल भू वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त करते हैं।

वे पद भार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा में होंगे, जिसे आवश्यक समझे जाने पर सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है।

सोहन सिंह सैनी, अवर सचिव

सं. 7/6/2003-भूजल-I--राष्ट्रपति, डा. बी. एस. आर. एन. राव वैज्ञानिक-'डी' को एस. आर., हैदराबाद में 3 जुलाई, 2003 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय भूजल बोर्ड में 14,300-400-18,300 रुपये के वेतनमान में पदोन्नति पर क्षेत्रीय निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सोहन सिंह सैनी, अवर सचिव

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2003

सं. 801/7/96-एफ.(सी)--राष्ट्रपति, श्री एस. गोपालरत्नम्, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-क के अन्तर्गत दिनांक 14.8.2003 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

विश्वजीत सहाय, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. 1/52/2002-एम.यू.सी.--राष्ट्रपति, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) तथा प्रकाशन प्रभाग निदेशालय (डी.पी.डी.) के उत्पादन स्टाफ के समान संवर्ग के श्री वी. के. मीणा, सहायक उत्पादन प्रबंधक (मुद्रित प्रचार) को 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सदृश संवर्ग के उत्पादन प्रबंधक (मुद्रित प्रचार) के पद (समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय) पर दिनांक 13.06.2003 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

2. श्री मीणा दिनांक 13.06.2003 से दो वर्ष के लिए परीक्षा अवधि पर रहेंगे। परीक्षावधि का सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है।

एस. वी. कृष्णन, अवर सचिव

## श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2003

सं. ए-19011/2/2003-प्रशा.-1--सुश्री हरजीत कौर, आईपीओएस(92) ने 30 जून, 2003 की पूर्वाह्न से श्रम मंत्रालय में उप सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है।

एम. सी. मित्तल, उप सचिव

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 094, 15th July 2003

No. 3/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No., Name &amp; Date of appointment

Shri/Smt/Kum

1. Gaurav Belwal—06-05-2003
2. Wilfred A.A.W.—09-05-2003
3. Bhupesh Agrawal—19-05-2003
4. Jayachitra—20-05-2003
5. K. Subbulakshmi—29-05-2003
6. R. Jaishmi Kiruba Rajathi—04-06-2003

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1(2)/2003-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Kum. Shugi Kuriakose, Scientist/Engineer-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the afternoon of 30-05-2003.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1(2)/2003-I.—Consequent on acceptance of Voluntary retirement the following Scientists/Engineers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No., Name, Post &amp; Date of relief

Shri/Smt/Kum

1. S. Usha Devi, Scientist/Engineer-SF—20-05-2003
2. G. Muthuraman, Scientist/Engineer-G—30-05-2003

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1(2)/2003-I.—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Officers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the 30-5-2003 :—

Sl. No., Name &amp; Post

Shri/Smt/Kum

1. M. Prabhakaran Nair—Scientist/Engineer-SD
2. S. Subramanian—Scientist/Engineer-SE
3. K. Ramachandran Nair—Scientist/Engineer-SF
4. Somasundaram, U.I.—Scientist/Engineer-SG
5. A. Venugopal—Scientist/Engineer-SG
6. T. Narayana—Scientist/Engineer-SF
7. Johny P Abraham—Scientist/Engineer-SF
8. P. M. Varghese—Scientist/Engineer-SG
9. K. M. Samuel—Stores Officer

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 4/1(1)/2003-J.—The President is pleased to appoint Shri N. Sreenivasulu Reddy as Scientist/Engineer-SD in the Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 21-3-2002 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 4/1(1)/2003-J.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No., Name &amp; Date of appointment

Shri/Smt/Kum

1. U. Srihariram—21-01-2002
2. S. V. V. Satyanarayana—08-04-2002
3. A. Rajesh—10-04-2002
4. Roy Thankachan—10-04-2002
5. M. Ramakrishna—11-04-2002
6. Amitav Mohanty—22-04-2002
7. M. Karthigaiselvan—22-05-2002
8. K. Siva Kameswar—29-05-2002
9. E. Suresh Kumar—12-06-2002
10. D. Sreenivasa Reddy—25-09-2002
11. S. Abdul Saleem—20-11-2002

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 4/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Medical Officer-SD in the Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No., Name &amp; Date of appointment

Shri/Smt/Kum

1. Dr. G. Sheela—17-09-2002
2. Dr. Shakapur—19-12-2002

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 5/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint Shri T. Lakshmana Kishore as Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 28-5-2003 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 5/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders :—

Sl. No., Name &amp; Date of appointment

Shri/Smt/Kum

1. Vinay Kulkarni—02-06-2003
2. Prashant D Bagalkot—18-06-2003
3. Vinod Narayanarao Bagi—19-06-2003

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 6/1(2) 2003-I.—Consequent on attaining the age of superannuation Shri A. Gururaja, Scientist/Engineer-SE in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 30-06-2003.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 9/1 (1) 2003-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the INSAT-Master Control Facility, Hassan of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 1-7-2003 and until further orders :—

Sl. No., Name, Post from which Promoted and Post to which Promoted

- | Sl. No. | Name                | Post from which Promoted                    | Post to which Promoted |
|---------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|         | Shri/Smt./Kum.      |                                             |                        |
| 1.      | Dr. C. G. Patil     | Scientist/Engineer-SG—Scientist/Engineer-G  |                        |
| 2.      | A. C. Mohanty       | Scientist/Engineer-SE—Scientist/Engineer-SF |                        |
| 3.      | T. N. Suresh Kumar  | Scientist/Engineer-SD—Scientist/Engineer-SE |                        |
| 4.      | Mir Sardar Mohideen | Scientist/Engineer-SD—Scientist/Engineer-SE |                        |
| 5.      | Shashikala S. Rao   | Scientist/Engineer-SB—Scientist/Engineer-SC |                        |
| 6.      | S. S. Maruthi       | Scientist/Engineer-SB—Scientist/Engineer-SC |                        |

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

#### PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 22nd July 2003

No. A. 19 (687)/94-Adm. II.—Consequent upon his promotion to Junior Administrative Grade (JAG) of Indian Economics Service and posting as Joint Director in National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Chemical & Petrochemical vide Department of Economic Affairs' Order No. 11016/1/2001-IES dated 10-7-2003, Shri O. P. Sharma, Senior Research Officer (IES), Planning Commission is hereby relieved w.e.f. 22-07-2003 (A/N) to report to National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Chemical and Petrochemical, Ministry of Chemical and Fertilizers.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. A. 19 (692)/94-Adm. II.—Consequent upon his promotion to Junior Administrative Grade (JAG) of Indian Economics Service and posting as Joint Director in Commission for Agricultural Cost and Pricing, Ministry of Agriculture and Cooperation vide Department of Economic Affairs' Order No. 11016/1/2001-IES dated 10-7-2003, Shri R. S. Thakran, Senior Research Officer (IES), Planning Commission is hereby relieved w.e.f. 22-07-2003 (A/N) to report CACP, Ministry of Agriculture and Cooperation.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 23rd July 2003

No. A-12025/18/2001-Adm. I.—In continuation of Planning Commission's Notification No. A-12025/5/2001-Adm. I dated 26th February, 2003, the President is pleased to extend the term of ad-hoc appointment of Shri S. G. Rao as Joint Adviser (Village and Small Industries) in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 for the period upto 31-12-2003 or till the post in question is filled up on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

2. It is made clear that this adhoc appointment will not bestow on Shri Rao any right to claim for regular appointment in the grade of Joint Adviser and also that any service rendered by him on adhoc basis in the grade of Joint Adviser would neither count for the purposes of seniority in the grade of Joint Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. A-12025/18/2001-Adm. I.—In continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 6th March, 2003, the President is pleased to extend the term of ad-hoc appointment of Shri Shashi Kant, a regular Sr. Research Officer (Water Supply), Planning Commission as Deputy Adviser (Village and Small Industries) in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 for the period upto 31-12-2003 or till the regular incumbent of the post reverts or until further orders, whichever is the earliest.

2. It is made clear that this adhoc appointment will not bestow on Shri Shashi Kant any right to claim for regular appointment in the grade of Deputy Adviser and also that any service rendered by him on adhoc basis in the grade of Deputy Adviser would neither count for the purposes of seniority in the grade of Deputy Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 24th July 2003

No. F. 6 (1599)/94-Adm. I.—Consequent upon his repatriation from All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi on completion of the three years tenure of deputation Shri M. M. Chanda has resumed the charge of his substantive post of Deputy Adviser (Engineering) in Planning Commission w.e.f. 23-07-2003 (F/N).

K. K. CHHABRA, Under Secy.

#### MINISTRY OF STATISTICS & P. I.

New Delhi-1, the 28th July 2003

No. A-19020/1/2003-Ad.I.—The President is pleased to appoint Dr. Adarsh Kishore, IAS (RJ : 69) as Secretary to the Government of India with effect from 2-7-2003 (F/N) in the pay of Rs. 26000 (fixed). He has also taken additional charge of the Post of Director General, Central Statistical Organisation from the same date till further orders.

A. N. BARDAIYAR, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 28th July 2003

No. I-18011/6/98-IPS.IV.—In exercise of powers conferred by Rule-A3 of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Puneet Rastogi, IPS (HT : 1995) (Tripura Segment), in Indian Police Service with effect from 04-09-1997.

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

#### (NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU)

New Delhi-110066, the 24th July 2003

No. 34/4/2003-Ad.II/NCRB-5690.—The President is pleased to appoint Shri Ramesh Chand Meena, an Assistant Director in the Computer Centre, Ministry of Statistics & Programme Implementation to the post of Assistant Director in the Computer & Systems Division of National Crime Records Bureau in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- + Rs. 400/- Spl. Pay with effect from the forenoon of 31st March, 2003 on deputation basis for a period of 3 years or until further orders.

B. S. DHUPIA, Asstt. Director (Admn.)

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS**

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

(TRAINING DIVISION)

New Delhi-110067, the 21st July 2003

No. 13019/11/2003-Academy (Desk).—The President is pleased to appoint Shri Rajiv Ranjan Mishra, IAS (AP : 87) and Smt. Vasudha Mishra, IAS (AP : 87) as Deputy Directors (Senior) (Director level) in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie in the pay scale of Rs. 15100-400-18300 with effect from 23-06-2003 (forenoon) for a period of three years or until further orders whichever event takes place earlier.

JAGMOHAN GUPTA, Director

**MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS**

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 10th July 2003

No. 62 : (F.No. A. 19013/15/2003-Ad.I).—The President is pleased to appoint Shri G. S. Karki, IC&CES as Under Secretary in the Central Board of Excise & Customs, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 9-7-2003 (F/N) and until further orders. He is posted as Under Secretary (TRU).

PREETI PANT, Under Secy.

The 18th July 2003

No. 63 : (F.No. A. 19011/14/2003-Ad.I).—The President is pleased to appoint Shri Satish Chandra, an officer of the Indian Administrative Service (AGMU : 70), as Additional Secretary to the Government of India in the Department of Revenue, Ministry of Finance with effect from 17-07-2003 (F/N) and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

New Delhi, the 3rd July 2003

No. 12 of 2003 (F. No. A-38012/8/2003-AD-II).—The President is pleased to accept the voluntary retirement of Shri S. U. Pillay, Asstt. Commissioner of Customs from the Indian Customs and Central Excise Service, Group "A" w.e.f. 01-07-2003 (F/N)

K. KIPGEN, Under Secy.

The 15th July 2003

No. 14 of 2003 (F. No. A-38012/10/2003-AD-II).—The President is pleased to accept the voluntary retirement of Shri P. R. M. Baharuddin, ACC from the Indian Customs and Central Excise Service, Group "A" w.e.f. 09-07-2003 (F/N).

K. KIPGEN, Under Secy.

**(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)**

New Delhi, the 21st July 2003

No. A. 12011/6/2003-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri Anil Sharma, a regular Assistant of the Finance Cadre as Section Officer in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, in the pay scale of Rs. 6500—16500 w.e.f. 1st July 2003 (F/N).

S. SOUNDER RAJAN, Under Secy.

New Delhi, the 21st July 2003

No. 4/5/2000-Cy.II(BNP).—On his successful completion of probation, the President is pleased to appoint Shri Nayyar Akhtar as Assistant Works Manager (Rs. 8000—13500/-) on substantive basis in the Bank Note Press, Dewas w.e.f. 18th August 2002.

D. R. BHALLA, Under Secy.

**(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)**

New Delhi-110001, the 17th June 2003

No. A-32011/17/2003-Admn.I.—Consequent on his qualifying the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2001 held by the Union Public Service Commission and allocation of his name in the Select List of Section Officers, Grade for the year 2001 against Examination Quota by the Department of Personnel & Training vide their Office Memorandum No. 5/7/2003-CS.I dated May 05, 2003, the President is pleased to appoint Shri Ujjwal Kumar to the post of Section Officer in the cadre of this Department, in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/-, w.e.f. the forenoon of May 30, 2003.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

The 18th June 2003

No. PFG/852/2003-Ad.I.—In pursuance of Department of Expenditure's Office Order No. PFCA(290)/Ad.I dated 30th April, 2003, Shri Manish Goswami, an Officer of the Indian Cost Accounts Service (ICAS) has assumed the charge of the post of Assistant Director (Cost) in the Department of Company Affairs w.e.f. the forenoon of 02nd June, 2003.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

The 24th July 2003

No. PFG (638)/2002-AD.II.—On his transfer, Shri Benudhar Mishra, a Junior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service relinquished charge of the post of Assistant Registrar of Companies in the O/o Registrar of Companies, Bihar & Jharkhand, Patna in the afternoon of 19-6-2003.

2. In exercise of powers conferred by sub-Section 1(1-A) of Section 448 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri Benudhar Mishra, a Junior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Assistant Official Liquidator in the office of Official Liquidator Kolkata w.e.f. the forenoon of 23-6-2003, until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

The 25th July 2003

No. PFG(365)/78-AD.II.—On his transfer, Shri Har Lal, a Junior Administrative Grade (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service relinquished charge of the post of Joint Director (Inspection) in the O/o Regional Director, Kanpur in the afternoon of 30-6-2003.

2. In exercise of powers conferred by sub-Section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri Har Lal, a Junior Administrative Grade (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Registrar of Companies, U.P. & Uttaranchal, Kanpur w.e.f. the afternoon of 30-6-2003, until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

## MINISTRY OF COMMERCE &amp; INDUSTRY

## (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 30th June 2003

No. A-42012/1-98-E, IV/CDN.—The President is pleased to appoint Shri V. Lakshmi Ratan, IAS (TN : 67) as Chairman, Tariff Commission in the Department of Industrial Policy and Promotion, in the rank and pay of Secretary to the Government of India (Rs. 26000/- fixed) w.e.f. 24-06-2003 (A/N).

G. M. SINGH, Under Secy.

## OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER

New Delhi, the 25th July 2003

No. A-22012/1/2003-Ec. Ad. (Admn. I).—The President is pleased to appoint Shri Arvind Kumar, a Non-Functional Selection Grade Level Officer of Indian Economic Service, as Additional Economic Adviser (Pay Scale Rs. 14300-400-18300) in the Office of the Economic Adviser with effect from the forenoon of 1st July, 2003.

G. S. NEGI, Addl. Economic Adviser

## (DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 18th July 2003

No. A-22015/1/98-E. II.—The President is pleased to appoint Mrs. Asha Rani, PPS (in-situ) borne on the cadre of the Ministry of Coal as Principal Private Secretary in the Office of the DGFT with effect from the forenoon of the 17th July, 2003 on ad-hoc basis for a period upto 31-12-2003 in the pay scale of Rs. 10000—15200.

The appointment of Mrs. Rani is purely on adhoc basis and will not confer any right on her to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Private Secretary Grade of CSSS.

N. P. DWIVEDI, Dy. Secy.

The 23rd July 2003

No. A-11015/1/96-E.II.—In pursuance of the approval as communicated by the Ministry of Finance, Department of Expenditure vide their U.O. No. 61/2/2002-IC dated 18-7-2003, the posts of Senior Investigators (feeder posts to the Indian Economic Service) in the Department of Commerce have been re-designated as Economic Officers (Group B-Gazetted) with immediate effect in the pay scale of Rs. 6500-200-10500. Consequently, the present designated of the following Senior Investigators of the Department of Commerce has been changed as Economic Officers (Group B-Gazetted) with effect from the forenoon of 23rd July, 2003 :—

1. Smt. Komal Gulafi
2. Shri D. K. Sethi
3. Shri M. Ibrahim Kutty
4. Shri V. Ashok (presently on deputation as Jr. Analyst in DOC)
5. Shri O. P. Kala
6. Shri Rameshwar Singh
7. Shri P. C. Hariyal
8. Shri S. Santhanam
9. Smt. Shirley Daniel
10. Smt. Usha Kumar (presently on deputation as Research Officer in DOC)
11. Shri K. K. Pandey (presently on deputation as Research Officer in DOC)
12. Smt. Raj Dulari
13. Shri Vivek Kumar

N. P. DWIVEDI, Dy. Secy.

## MINISTRY OF PETROLEUM &amp; NATURAL GAS

New Delhi, the 14th July 2003

No. A-19011/11/97-Estt.—In supersession of Notification of even number dated 12-03-2003, the President is pleased to extend the Central Deputation Tenure of Shri Shivraj Singh, IAS (CG : 73), Joint Secretary in the Ministry of Petroleum & Natural Gas for a period of four months beyond 14-3-2003 so as to enable him to continue as Nodal Officer to assist the Two-Judge Committee constituted by the Supreme Court of India.

2. On completion of his extended Central Deputation Tenure on 14th July, 2003 (AN), the services of Shri Shivraj Singh, IAS (CG : 73), Joint Secretary in this Ministry, are placed at the disposal of Government of Chhattisgarh for joining after the expiry of the sanctioned Earned Leave for 17 days.

L. S. NEGI, Under Secy.

## MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 18th July 2003

No. 12/6/2003-ASO.—The President is pleased to appoint Sh. M. Satyamurthy, Deputy Director (Mines Safety) as Private Secretary to Minister of Coal (Sh. Kariya Munda) at the level of Director w.e.f. 18-7-2003 (A/N) for the balance period of his 5 years tenure i.e. upto 07-09-2006 or till he ceases to function as Private Secretary to Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

T. K. GHOSH, Director

## MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES &amp; PUBLIC ENTERPRISES

## (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi, the 9th July 2003

No. A-12023 (2)/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Arun Borse, Dy. Engineer, Nagpur Housing and Area Development Authority, Government of Maharashtra as Assistant Private Secretary to the Minister of Heavy Industries and Public Enterprises, Shri Subodh Mohite w.e.f. 11th June, 2003 (Afternoon) until further order or till the Minister demits office, whichever is earlier.

K. K. SHARMA, Under Secy.

No. A-12023 (2)/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri N. N. Agarhedkar, Sub Divisional Engineer, Command Area Development Authority, Nagpur as Additional Private Secretary to the Minister of Heavy Industries and Public Enterprises, Shri Subodh Mohite w.e.f. 10th June, 2003 until further order or till the Minister demits office, whichever is earlier.

K. K. SHARMA, Under Secy.

## MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi, the 17th July 2003

No. A-18011/35/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Sandeep Dave, IAS (KN : 87) as Director in the Ministry of Small Scale Industries in the pay scale of Rs. 15,100-400-18,300/- for the balance period of his Central deputation tenure of five years i.e. up to 25-04-2004 or until further orders, whichever event takes place earlier. His tenure of Central deputation had commenced w.e.f. Chennai.

H. R. JOSHI, Under Secy.

## MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

New Delhi, the 14th July 2003

No. A-12031/1/2003-Estt.—Consequent upon completion of his tenure of Central deputation, Shri V. Giriraj, IAS (MH: 85) presently working as Chief Vigilance Officer in the Khadi and Village Industries Commission, Mumbai is relieved from his duties with effect from the afternoon of 15-07-2003.

H. R. JOSHI, Under Secy.

## MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 21st April 2003

No. A-19011/3/2002-Admn.—Consequent on the inclusion of his name in the Select List for the year 1994 for appointment to the Selection Grade of the CSS by the DoPT vide their OM No. 29/2/2001-EO (MMI) dated 12-12-2002, the President is pleased to appoint Shri J. P. Shukla of Central Secretariat Service to the Selection Grade of the CSS on a regular basis as per details indicated below :

Sl. No.	Name & Designation of the Officer	Seniority assigned in Selection Grade of CSS as per DoPT's OM dated 12.12.2002  Select List Year	Deemed date of appointment  Actual date of appointment	Ministry/ Department where working on deemed date of appointment  Ministry/ Department where working on actual date of appointment
1.	Sh. J. P. Shukla, Deputy Secretary (DoB. 22.02.54)	34  1994	1.7.1994  9.8.1999	M/o Labour  M/o Labour

M. JAYARAMAN, Under Secy.

New Delhi-110049, the 29th July 2003

No. A-19012/3/94-Admn.—The President is pleased to permit Shri Niaz Rasul, a permanent Additional Industrial Adviser and officiating as Industrial Adviser in the Ministry of Food Processing Industries to retire from Government Service with effect from the afternoon of 31st July 2003, on his attaining the age of superannuation.

N. M. L. BHATNAGAR, Under Secy.

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD &amp; PUBLIC DISTRIBUTION

## (DEPARTMENT OF FOOD &amp; PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 9th July 2003

File No. A-38012/3/2003-SRA.—On attaining the age of superannuation, Dr. R. B. Doharey, JC (S&R), of this Department who belongs to Group 'A' General Central Services, will stand retire from the Government Services with effect from the afternoon of 31st July, 2003.

RAJAT DATTA, Under Secy.

DTE OF V.V.O. &amp; F.

New Delhi, the 21st July 2003

No. A-20011/1/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Rajni Agrawal, Assistant Director in the Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats as Deputy Director on ad-hoc basis in the same organisation in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 w.e.f. 8-7-2003 for a period of six months or till the post

is filled up on regular basis or until further orders, whichever event takes place earlier.

M. L. MALHOTRA, Under Secy.

## DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

New Delhi, the 22nd July 2003

No. A-12011/3/95-Estt.—In exercise of the power conferred by Sub-section (2) of Section 3 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby appoints Smt. Padma Swaminathan, CSS as Member (equivalent to Joint Secretary level) in the Forward Markets Commission, Mumbai, an attached office under the administrative control of the Department of Consumer Affairs in the scale of pay of Rs. 18400-500-22400 w.e.f. forenoon of 10-7-2003 on Central Deputation Terms for a period of three years.

2. As per provision of sub-section 4 of section 3 of Forward Contract (Regulation) Act, 1952, Smt. Padma Swaminathan on completion of her service in the post of Member, FMC would be eligible for re-appointment to the post.

S. K. NAYAK, Under Secy.

The 24th July 2003

F No. P-993/98-Estt.—The President is pleased to promote Shri R. D. Matdahiya a regular Metrological Assistant in the Department of Consumer Affairs, as Assistant Director (Legal Metrology) in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 on regular basis with effect from the forenoon of 17th July 2003 and until further orders.

S. K. NAYAK, Under Secy.

## MINISTRY OF HEALTH &amp; FAMILY WELFARE

New Delhi, the 16th July 2003

No. A. 11013/3/2003-Estt. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer's) Office Memorandum No. 5/1/2003-EO (MM-I) dated 10-7-2003 and in continuation of this Ministry's Notification of even number dated 6-3-2003, the President is pleased to extend the tenure of Shri Anshu Prakash, IAS (AGMU : 86) as Private Secretary to the Minister of Health & Family Welfare and Parliamentary Affairs (Smt. Sushma Swaraj) for a period of one year beyond 8-6-2003 i.e. up to 8-6-2004.

Dr. ANIL KUMAR, Under Secy.

## (DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 21st July 2003

No. A. 12025/4/2001-CHS. III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Vinita Gupta an officer of the Specialist Grade of Teaching Sub-Cadre of Central Health Service, on probation and to post her as Assistant Professor of Anatomy at V. M. M. C. & S. J. Hospital, New Delhi with effect from the forenoon of the 9th May, 2003 until further orders

U. C. NANGIA, Dy. Secy.

New Delhi-110011, the 21st July 2003

No. A. 12025/170/98-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sanjay Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 4th January, 2001 until further orders. Dr. Sanjay Kumar is posted as Medical Officer under Ministry of Labour, New Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 22nd July 2003

No. C. 14011/4/2002-CHS. I.—Consequent upon acceptance of his resignation, Dr. Ravi Venkat Sai Kumar is deemed to have relinquished the charge of the post of Medical Officer of Central Health Service under Central Government Health Scheme, Delhi on the forenoon of 25-10-2002.

The period from 16-11-2001 to 25-10-2002 (F/N) has been treated as DIES-NON.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 38011/1/2003-CHS. I.—Consequent upon retirement on attaining the age of superannuation Dr. Manjit Singh of Regularised Cadre of Central Health Service holding the post of CMO (NFSG) under Central Government Health Scheme, Delhi relinquished the charge of the post on the 31-3-2003 (A/N).

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 23rd July 2003

No. A. 12025/103/99-CHS. I.—On the recommendations of the Union Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Manoranjan Jha to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from afternoon of the 23rd August, 2000 until further orders. Dr. Manoranjan Jha is posted as Medical Officer under Regional Office for Health & Family Welfare, Patna with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 24th July 2003

No. A. 12025/150/99-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Umesh Prasad Yadav to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from afternoon of the 10th July, 2000 until further orders. Dr. Umesh Prasad Yadav is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 25th July 2003

No. A. 12025/193/94-CHS.I.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. A. Venkatasubbaiah to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000 (Pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 21st September, 1994 until further orders. Dr. A. Venkatasubbaiah is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/82/99-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. B. V. Shravan Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 7th July, 2000 until further orders. Dr. B. V. Shravan Kumar is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme New Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

## (DEPARTMENT OF ISM &amp; H)

New Delhi, the 21st July 2003

No. A. 32012/1/2002-ISM (Estt.I).—Consequent on his promotion, Dr. S. R. Reddy, under the Central Government of Health Scheme relinquished the charge of the post of Senior Medical Officer (Ay.) on the forenoon of the 29th September, 2002 and assumed the charge of the post of Chief Medical Officer (Ay.) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200+NPA in CGHS, Hyderabad on the forenoon of 29th September, 2002 until further Order.

N. K. LAKHANPAL, Under Secy.

## MINISTRY OF AGRICULTURE

## (DEPARTMENT OF AGRICULTURE &amp; COOPERATION)

New Delhi-110001, the 6th June 2002

No. A. 19012/8/2000-EA.—Consequent upon his posting as Economic Adviser in the Department of Chemicals & Petrochemicals vide Department of Economic Affairs' Order No. 11016/4/2002-IES dated the 21st April, 2003; Shri S. C. Gautam, an SAG level Officers of IES, presently working as Adviser in the Commission for Agricultural Costs and Prices, Department of Agriculture & Cooperation, has relinquished the charge of the post in the Commission with effect from the afternoon of 30th April, 2003.

RAJ KUMAR, Under Secy.

The 15th July 2003

No. A-19012/2/2003-EA.—In supersession of this Department's Notification of even number dated the 23rd June, 2003, consequent upon her posting as Assistant Director in the Commission for Agricultural Costs and Prices vide Ministry of Statistics and Programme Implementation's Order No. 12015/5/DRP/2002-ISS dated 30-10-2002; Mrs. Bindu Sreedathan (née S. Nair), a Grade IV (JTS) Officer of ISS, has assumed the charge of the post in the Commission for Agricultural



Costs and Prices, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 8,000—13,500/- with effect from 02-4-2003 (F/N).

RAJ KUMAR, Under Secy.

The 28th July 2003

No. A. 19012/4/2003-EA.—Consequent upon his posting as Director in the Commission for Agricultural Costs and Prices, Department of Agriculture and Cooperation vide Department of Economic Affairs order No. 13015/1/2002-IES dated 25-6-2003; Shri B. Brahma, an NFSG level Officer of IES, has assumed the charge of the post of Director in the Commission in the pay scale of Rs. 14,300—18,300/- with effect from 1-7-2003 (F/N).

RAJ KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 14th July 2003

No. 12022/5/2003-E.I.—Consequent upon inclusion of the names of S/Shri P. Lakshmi Kanthan and Braham Raj Grade 'C' Stenographers (Personal Assistants) borne on the cadre of the Department of Agriculture & Cooperation and working as Private Secretaries on ad-hoc basis, in the Select List of Grade 'A&B' (merged) of CSSS for the year 2000 against Seniority Quota, the President is pleased to appoint them as Private Secretaries on regular basis in the same Department with effect from the forenoon of 5-6-2003 and until further orders.

K. D. UPRETI, Under Secy.

No. 12022/5/2003-E.I.—Consequent upon inclusion of the name of Smt. Lucy Bara (ST), Grade 'C' Stenographer (Personal Assistant) borne on the cadre of the Department of Agriculture & Cooperation, in the Select List of Grade 'A&B' (merged) of CSSS for the year 2001 against Seniority Quota, the President is pleased to appoint her as Private Secretary on regular basis in the same Department with effect from the forenoon of 6-6-2003 and until further orders.

K. D. UPRETI, Under Secy.

The 23rd July 2003

No. 12023/5/2001-E.V.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. C. D. Mayee, a regular officer of Marathwada Agricultural University and working as Director in the Central Institute for Cotton Research (under ICAR), Nagpur, on deputation basis, as Agriculture Commissioner in the pay scale of Rs. 22400-525-24500 in the Department of Agriculture and Cooperation on deputation basis w.e.f. the forenoon of 15-7-2003 and upto 3-8-2005 (A/N) or until further orders, whichever is earlier.

K. D. UPRETI, Under Secy.

No. 12026/5/2001-E.I/E.V.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri G. Chakraborti, Senior Analyst, Regional Fertilizer Control Laboratory, Kalyani, as Deputy Commissioner (INM) in the pay scale of Rs. 12,000—16,500/- in the Department of Agriculture & Cooperation w.e.f. the forenoon of 7th July, 2003 on deputation basis for a period not exceeding four years or until further orders, whichever is earlier.

K. D. UPRETI, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING

New Delhi-110001, the 24th July 2003

No. A-12026/2/98-Admn.I.—The Competent Authority in the Department of Animal Husbandry & Dairying has approved extension of the appointment of Shri Babu Ram, Assistant Commissioner (CU) to the post of Deputy Commissioner

(ICDP) in the pay scale of Rs. 12,000—16,500 on ad hoc basis for the period from 1st July 2000 to 30th September 2003.

2. This issues with the approval of Department of Personnel & Trg. vide their U.O. No. 1570/Estt.(D)/03 dated 21-7-2003.

R. K. SHARMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi-110001, the 4th July 2003

No. A-12023/4/2003-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri Lekhan N. Thakkar, a Section Officer of CSS Cadre as Additional Private Secretary to Minister of Rural Development (Shri Kashiram Rana) with effect from the afternoon of 26-5-2003 on Co-terminus basis or till he ceases to function as Additional Private Secretary to Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

H. C. BAVEJA, Under Secy.

#### MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

##### (DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 10th July 2003

No. 15-1689/2001-E.I.—In pursuance of Sub-section (1) of Section 10 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), the Central Government hereby appoints Shri S. D. Sharma Section Officer in this Ministry as Deputy Registrar of Copyrights vice Shri M. M. Saxena, Section Officer with immediate effect.

B. M. SADDI, Under Secy.

#### ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi-11, the 23rd July 2003

No. F. 2-2/2003-Adm.I.—On the recommendation of Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Dr. M. Y. Qudusi to officiate as Superintending Epigraphist (Arabic & Persian Inscriptions) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Archaeological Survey of India w.e.f. the forenoon on 4th June, 2003 until further orders.

J. R. AGGARWAL  
Director (Admn.)

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

##### (DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

##### NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 23rd July 2003

No. A-39013/1/2000-Admn.I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Rakesh Sharma, Emp-Code-4059, from the post of Scientist 'C', National Informatics Centre, Madhya Pradesh State Unit, Bhopal with effect from the afternoon of 27th December 2000 and he is relieved of his duties from the same day.

SHYAM SUNDER, Jt. Director

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 7th July 2003

No. A-38014/2/2003-E.I.—Shri A.S. Negi, an officer of Central Secretariat Service and working as Section Officer in the Ministry of Road Transport & Highways had expired on 7-6-2003.

A. P. PADHI, Under Secy.

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 28th July 2003

No. 7/12/99-GW.I.—The President is pleased to appoint Shri Indranil Roy to the post of Junior Hydrogeologist in the grade of Scientist "B" in the pay scale of Rs. 8,000-275 13,500/- in Central Ground Water Board on temporary basis w.e.f. 9-6-2003 (F/N).

He will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining the post, which may be extended by the competent authority at his discretion, if considered necessary.

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

No. 7/6/2003-GW.I.—The President is pleased to appoint Dr. B. S. R. N. Rao, Scientist 'D' as Regional Director on promotion in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in Central Ground Water Board with effect from 3rd July, 2003 (F/N) at SR, Hyderabad.

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

## MINISTRY OF INFORMATION &amp; BROADCASTING

New Delhi, the 15th July 2003

No. 801/7/96(C).—The President is pleased to permit Shri S. Gopalarathnam, Sr. Administrative Officer, Central Board of Film Certification, Mumbai to retire voluntarily

from Government service under rule 48-A of CCS (Pension) Rules, 1972 w.e.f. 14-8-2003 (F/N).

VISHVAJIT SAHAY, Dy. Secy.

New Delhi, the 28th July 2003

No. 1/52/2002-MUC.—The President is pleased to appoint Shri V. K. Meena, Assistant Production Manager (Printed Publicity) in the common cadre of Production staff of Directorate of Advertising and Visual Publicity (DAVP) and Directorate of Publication Division (DPD) to the post of Production Manager (Printed Publicity) (Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial) of the same cadre of the Ministry of Information and Broadcasting in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 13-6-2003.

2. He will be on probation for a period of two years from 13-6-2003. The period of probation is extendable at the discretion of the competent authority.

S. V. KRISHNAN, Under Secy.

## MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 30th July 2003

No. A-19011/2/2003-Admn.I.—Ms. Harjot Kaur, IPoS (92), has assumed the charge of the post of Deputy Secretary in the Ministry of Labour in the forenoon of 30th June, 2003.

M. C. MITTAL, Dy. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, फरीदाबाद द्वारा मद्रित  
एवं प्रकाशन निर्यत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,  
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003